



सा विद्या या विमुक्तये

फोन : 01564-294079

मोबाइल : 93142-45243

सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त)

सरदारशहर-331403, जिला-चूरु (राजस्थान)

Website : saraswatitcollege.com, E-mail : sttcollegesds@rediffmail.com

Institutional policy document on providing financial support to teachers.-

Saraswati Shikshak Prashikshan Mahvidyalaya, Sardarshshar believes that research and quality improvement in the teaching and learning process contribute to classroom excellence. Significant change in the structure of education have occurred both nationally and worldwide making learning more accessible. As a result of these changes teachers must be more adaptable, flammable and diversified.

Policy statement

This program intends to assist faculty members in advancing their academic carriers. The goal is achieved by offering financial assistance to educators and encouraging them to attend seminars conference and workshops held in academic platforms. This would aid in sharing knowledge & fostering academic growth. This also helps to create a conducive environment for academic study. This world improves teachers professional and personal effectiveness resulting in institutional individual and student academic achievements.

Objectives

To provide financial support to all teaching faculty for the fallowing.

1. Attending or participating in seminars, conferences, workshops, refresher courses.
2. Encouraging faculty members to apply for travel funds.
3. Providing financial support to faculty members to encourage their participation in various conference/ workshop.
4. To create healthy platform for teachers to exchange their knowledge and ideas.
5. To propagate faculty welfare measures




प्राचार्य
सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
सरदारशहर





सा विद्या या विमुक्तये

फोन : 01564-294079
मोबाइल : 93142-45243

सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय

(राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त)

सरदारशहर-331403, जिला-चूरु (राजस्थान)


Website : saraswatitcollege.com, E-mail : sttcollegesds@rediffmail.com


Professional Development

Procedures for application and approval

The teachers need to follow the following procedure for application and approval for availing the financial support.

1. Teachers are deputed for seminars, workshop or conferences by the management committee; head of the committee makes an application to the principal about teachers' participations their registration fee and any other allowance. After approval of the principal funds are related by the account section
2. When the fee is paid by the teacher the amount is reimbursed of the following proper application and approval procedure.
3. The teacher needs to submit the relevant receipts and a copy of the attendance certificate to the account section for their record.
4. There are teacher who may be interested in enrolling for any course to enhance their professional skills. The college sanctions the course fee to the teacher. The receipts and record for the same are maintained by the accounts section.




प्राचार्य
सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
सरदारशहर

